

=====

AVYAKT MURLI

08 / 01 / 79

=====

08-01-79 ओम शान्ति अव्यक्त बापदादा मधुबन

संगमयुग में समानता में समीप भविष्य सम्बन्ध में भी समीप आत्माएं

सर्व के विघ्नों का विनाश करने वाले रूहानी पिता शिव बाबा बोले -

आज बाप-दादा चारों ओर के विदेशी और देशवासी बच्चों को दूर होते भी सन्मुख देख सर्व बच्चों को उसमें भी विशेष रूप में विदेशी बच्चों को एक बात के लिए विशेष शाबास दे रहे हैं। क्योंकि कोने-कोने में बाप के छिपे हुए बच्चों ने बाप को पहचान निश्चय से बहुत अच्छा जम्प लगाया है। भिन्न-भिन्न धर्म के पर्दे के अन्दर होते हुए भी सेकेण्ड में पर्दे को हटाए बाप के साथ सहयोगी आत्माएं बन गए, लगन में आए हुए विघ्नों को भी सहज ही पार कर रहे हैं। इसलिए बाप-दादा विशेष शाबास देते हैं। ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों के साथ बाप-दादा का सदा सहयोग है - हर बच्चे के साथसाथ हर कर्म में बाप का साथ है - सभी बच्चों को बाप-दादा द्वारा बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। गिफ्ट तो सबको मिली हुई है लेकिन उसको कार्य में लाना हरेक के ऊपर है। बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। सेकेण्ड में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। यह वन्डरफुल लिफ्ट तीनों लोकों तक जाने वाली है। जैसे ही स्मृति

का स्वीच आन किया तो एक सेकेण्ड में वहाँ पहुँच जावेंगे। लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो - इस लिफ्ट को विशेष यूज़ करने की विधि है अमृतबेले केयरफुल बन स्मृति के स्वीच को यथार्थ रीति से सेट करो तो सारा दिन आटोमेटिकली चलती रहेगी। सेट करना तो आता हे ना। अच्छी तरह से अभ्यासी हो ना। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट सारे दिन में कहाँ अटकती तो नहीं है। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाने से कभी भी यह लिफ्ट धोखा नहीं देगी। वर्तमान संगमयुग की लिफ्ट यह दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है। साथ साथ भविष्य स्वर्ग के राज्य की गिफ्ट भी बाप-दादा अभी देते हैं - स्वर्ग के गेट की चाबी बाप-दादा बच्चों को ही देते हैं। चाबी है अधिकारपन अर्थात् अधिकारी बनना। अधिकार की चाबी से गेट खुला हुआ है। तो नम्बर वन अधिकारी कौन बनता अर्थात् अधिकार द्वारा गेट पहले कौन खोलता उसको भी अच्छी तरह से जानते हो - लेकिन अकेले नहीं खोलते। उद्घाटन के समय आप भी सभी होंगे ना। देखने वाले होंगे वा करने वाले होंगे! कौन होंगे! साथी होंगे ना! कम से कम ताली बजाने के साथी तो होंगे ना। खुशियों की पुष्प वर्षा करेंगे ना। बाप-दादा समय की समीपता को देख हर बच्चे का बाप-दादा के साथ क्या समीप सम्बन्ध है, देख रहे हैं। अति समीप कौन है और समीप कौन हैं - और थोड़ा सा दूर से देखने वाले कौन है। बच्चों का डबल भविष्य बापदादा के सामने आता है। एक संगमयुग का भविष्य अर्थात् बाप समान बनने का भविष्य और

दूसरा फर्स्ट जन्म का भविष्य अर्थात् स्वर्ग का भविष्य। यहाँ समानता में समीप होंगे और वहाँ सम्बन्ध में समीप होंगे। जितना यहाँ समीपता द्वारा सदा साथ है उतना ही मूलवतन में भी ऐसी आत्माएं साथ-साथ हैं। और स्वर्ग में भी हर दिनचर्या में सम्बन्ध का साथ है - जैसे यहाँ तुम्ही से बोलूँ तुम्ही से खेलूँ, तुम्हीं से साथ निभाऊंगा वैसे भविष्य में भी सवेरे से साथ बगीचे में खेलेंगे, रास करेंगे, पाठशाला में पढ़ेंगे, सदा मिलते रहेंगे और फिर साथ-साथ राज्य करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप सदा स्वराज्य करने वाले अर्थात् स्व अधीन नहीं लेकिन स्व अधिकारी थे। ऐसे ब्रह्मा बाप को फालो करने वाले जिन्हों का सदा संकल्प साकार में है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे स्वराज्य करने वाले वहाँ भी साथ में राज्य करेंगे। यहाँ के नम्बरवन रेगुलर और पंचुअल गाडली स्टुडेन्ट वहाँ भी साथ-साथ पढ़ेंगे क्योंकि ब्रह्मा बाप नम्बरवन गाडली स्टुडेन्ट है - जो यहाँ अतिइन्द्रिय सुख के झुले में बाप के साथ-साथ सदा झूलते हैं वह वहाँ भी झूले में साथ झूलेंगे। जो यहाँ अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं वह वहाँ भी साथसाथ रास करेंगे। जो यहाँ बाप के गुण और संस्कार के समीप सर्व सम्बन्धों से बाप का साथ अनुभव करते हैं वही वहाँ रायल कुल के समीप सम्बन्ध में आवेंगे - तो बापदादा हरेक के नयनों से दोनों भविष्य देखते हैं - फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नम्बर की प्रालब्ध है। तो विदेशी बच्चे सब फर्स्ट जन्म में आवेंगे ना। इतने सब फर्स्ट में आवेंगे! फर्स्ट में कौन आवेंगे उसकी पहचान विशेष एक बात से करो। वह कौनसी? आदि से

अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे, विघ्न आए भी हों तो विघ्नों को जम्प दे पार किया है वा विघ्नों के वश हुए - निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही न हों - लेकिन विघ्न विनाशक वा विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें अगर आदि से अन्त तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बन सकते हैं - सहज मार्ग हैं ना। अच्छा -

कर्नाटक के बच्चे भी आए हैं। यह भी भारत का विदेश ही है। लण्डन से सहज आ सकते हैं लेकिन यह बहुत मेहनत से आते हैं। इसलिए मेहनत का फल प्रत्यक्ष बाप का मिलन हुआ है। लगन वाले अच्छे हैं - बच्चों की लगन को देख बाप भी हर्षित होते हैं। सदा इसी लगन के दीपक को बार-बार अटेन्शन के घृत से अविनाशी रखना। कर्नाटक के तरफ दीप बहुत जगाते भी हैं - जैसे स्थूल दीपक जगाते रहे वैसे अब लगन का दीपक सदा जगता रहे। सब अपने को बाप के खुशनशीब बच्चे समझते हो ना - अच्छा आज तो मिलने का दिन है -

सभी सिकीलधे बच्चों को श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बच्चों को सदा स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, तिलक और तख्तनशीन बच्चों को बापदादा का याद-प्यार और नमस्ते।

पार्टियों से मुलाकात (6-1-79)

1. ब्राह्मण जन्म की मुख्य पर्सनालीटी है प्यूरिटी -

सदा अपने को मन-वाणी और कर्म में सम्पूर्ण प्यूरिटी की परसनैलिटी वाले अनुभव करते हैं? क्योंकि ब्राह्मणों की परसनाल्टी है ही प्यूरिटी तो जो ब्राह्मण जीवन की परसनैलिटी है वह अपने जीवन में अनुभव करते हो? जितनी परसनैलिटी होगी उतना ही विशेष आत्माएं गाई जाएंगी। मुख्य परसनैलिटी प्यूरिटी है। ब्रह्मा बाप भी आदि देव वा पहला प्रिन्स कैसे बने। इस प्यूरिटी की परसनैलिटी के आधार पर वन नम्बर की परसनैलिटी की लिस्ट में आए। तो फालो फादर है ना। संस्कार ही पवित्रता के हैं। ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं। इसलिए आजकल के ब्राह्मणों द्वारा ही किसी भी प्रकार की शुद्ध वा श्रेष्ठ कार्य कराते हैं। क्योंकि उन्हीं को महान समझते हैं, श्रेष्ठता ही पवित्रता है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन के निजी जन्म संस्कार अपने में अनुभव करते हो। पवित्रता जन्म संस्कार बनी है? जैसे कोई के क्रोध के संस्कार जन्म से होते हैं तो कहते हैं चाहते नहीं हैं, मेरे जन्म के संस्कार हैं, ऐसे यह जन्म के संस्कार स्वतःही कार्य करते हैं। कभी स्वप्न में भी अपवित्रता के संकल्प नहीं आए इसको कहा जाता है प्यूरिटी की परसनाल्टी वाले। इस परसनाल्टी के कारण ही विश्व की आत्माएं आज तक नमस्कार कर रही हैं। महान आत्माओं को न जानते भी नमस्कार करते हैं, साधारण को नहीं, तो ऐसे महान हो ना।

2. मोह का बीज है सम्बन्ध - उस बीज को कट करने से सब शिकायतें समाप्त - मातायें सब नष्टोमोहा हो ना। जब बाप के साथ सर्व सम्बन्ध जोड़ लिए तो और किसमें मोह हो सकता है क्या? बिना सम्बन्ध के कोई

में मोह नहीं हो सकता। सदा यह याद रखो जब सम्बन्ध नहीं तो मोह कहाँ से आया, मोह का बीज है सम्बन्ध। जब बीज को ही कट कर दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। अगर अभी तक होता है तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है कुछ जोड़ा है, दो तरफ है। तो दो तरफ वाले को न मंजिल मिलती न किनारा होता। तो ऐसे तो नहीं हो ना। सब नष्टोमोहा हो ना। फिर कभी शिकायत नहीं करना कि क्या करें बन्धन हैं, कटता नहीं। जहाँ मोह नष्ट हो गया तो स्मृति स्वरूप स्वतः हो जाते फिर कटता नहीं मिटता नहीं यह भाषा खत्म हो जाती। सर्व प्राप्ति स्वरूप हो जाते। सदा मनमनाभव रहने वाले मन के बन्धन से भी मुक्त रहते हैं। अच्छा - ओम् शान्ति।

विदेशी भाई बहनों के साथ -

सभी बाप के सदा नियरेस्ट और डियरेस्ट हो? क्या समझते हो अपने को? अपनी कल्प पहले की प्रालब्ध स्पष्ट सामने है ना। डबल विदेशी आत्माओं का नम्बरवार इस संगमयुग के विशेष पार्टों में विशेष पार्ट जुड़ा हुआ है। डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा द्वारा विशेष वरदान है, कौन सा? विदेशी बच्चे जब से जन्म लेते हैं तभी पहली घड़ी में ही बापदादा द्वारा विशेष वरदान सदा छत्रछाया के अन्दर रहने का मिल जाता है जैसे भारत के शास्त्रों में दिखाया है, जब श्रीकृष्ण का जन्म हुआ तो जेल में जन्म होते हुए भी जब नदी पार किया तो साँप ही सेफ्टी के साधन बन गये, तो विदेशी बच्चों को वरदान है कि कैसे भी वातावरण अशुद्ध है, कैसी भी

जीवन पार्ट देख रहे हैं लेकिन फिर भी बाप की छत्रछाया बच्चों को सदा सेफ रखती आई है और अन्त तक रखेगी।

2. साथ-साथ विदेशी बच्चों को बाप के सदा साथ के अनुभव की विशेष मदद है। तीसरी बात विदेशी बच्चों को विशेष रूप से जन्मते ही सेवा के संस्कार का सहयोग है। यह भी विशेष ड्रामानुसार पार्ट मिला हुआ है। चौथी बात - याद की यात्रा में सहज ही अनुभवों की खान प्राप्त होने का वरदान भी विदेशियों को प्राप्त है। तो बताओ कितने लकीएस्ट हो? बापदादा के संगमयुगी विशेष अमूल्य रत्न ही जिन अमूल्य रत्नों द्वारा बाप दादा विश्व में ऐसे रत्नों को सेम्पुल के रूप में रखेंगे। इसलिए सदा बाप और सेवा के सिवाए कोई भी बात याद न रहे। साथ का अनुभव करते हो? शक्ति सेना क्या समझती है? शिव और शक्ति सदा साथ हैं ना, नाम ही है शक्ति, शिव शक्ति नहीं। जो शिव शक्ति है वह याद के सिवाए रह नहीं सकती। कभी भी कोई कार्य करो तो सदा यह सोचो कि विश्व सेवा के अर्थ निमित्तमात्र यह कार्य कर रहे हैं, इसी को ही कमल पुष्प के समान कहा जाता है तो सभी कमल पुष्प के समान कार्य करते न्यारे और बाप के प्यारे बन कर रहते हो? पाण्डव कमलपुष्प के समान हैं ना। यह लौकिक कार्य भी अनेक आत्माओं को सम्पर्क में लाने का साधन है क्योंकि ईश्वरीय सेवा के लिए सम्पर्क तो बनाना ही पड़ता है ना यही बना बनाया सम्पर्क मिल जाता है। इसलिए डबल कार्य के लिए डायरेक्शन दिये जाते हैं। और जैसे सम्पर्क आगे बढ़ते जायेंगे, सम्पर्क की आवश्यकता नहीं

रहेगी फिर लौकिक खड़ा हो जायेगा अलौकिक कार्य के निमित्त बन जायेंगे। सभी की यह स्टेज आती है और सदा है। यह भी सेवा का चान्स समझकर कार्य करो।

आस्ट्रेलिया पार्टी - आस्ट्रेलिया वालों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का संकल्प साकार में बहुत अच्छा लाया है। जो अनुभव किया वह अन्य आत्माओं को भी कराने का जो प्रैक्टिकल रूप दिखाया वह बहुत अच्छा। इस विशेषता के कारण आस्ट्रेलिया का नम्बर बापदादा के पास नम्बर वन में है। जैसे गायन है भारत के लिए घर-घर मन्दिर जैसे आस्ट्रेलिया वालों के घर-घर में अर्थात् जो भी आने वाले हैं, यह सेवा का सबूत देने में घर-घर को मन्दिर बनाने में नम्बर वन आ रहे हैं। तो आप सब कोन हो गये? मन्दिर में रहने वाली चैतन्य मूर्तियाँ। आप सब समझते हो हम नम्बर वन हैं? बाप को भी खुशी है। ऐसे ही आपको देखकर सब फालो करेंगे। आस्ट्रेलिया में क्यू सबसे पहले लगेगी। जैसे बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं तो आप सभी उम्मीदों के सितारे हो। चारों ओर ऐसे आवाज़ फैलाओ जो आस्ट्रेलिया का आवाज़। भारत में पहले पहुँच जाए। आवाज़ तब पहुँचेगा जब बुलन्द होगा। बुलन्द आवाज़ करने के लिए चारों ओर से एक आवाज़ निकले कि हमारा बाप गुप्तवेष में आ गया है। जैसे बाप ने आप बच्चों को गुप्त से प्रत्यक्ष किया वैसे आप सबको फिर बाप को प्रत्यक्ष करना है। सब शक्तियाँ मिलकर अंगुली देंगी तो सहज ही हो जायेगा। बहुत अच्छे-अच्छे रत्न हैं। एक-एक रत्न की अपनी अपनी विशेषता है। सदा अपने को कल्प

पहले वाले रत्न समझ कर चलेंगे तो विजय का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो जायेगा विजयी रहेंगे। अच्छा - ओम् शान्ति।

QUIZ QUESTIONS

प्रश्न 1 :- बापदादा विदेशी बच्चों को किस एक बात के लिये शाबास दे रहे हैं?

प्रश्न 2 :- सभी बच्चों को बापदादा द्वारा कौन सी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है और यह लिफ्ट कैसे काम करती है?

प्रश्न 3 :- बापदादा बच्चों का भविष्य किस आधार से. किस-किस रूप में देखते हैं?

प्रश्न 4 :- ब्राह्मण जन्म की मुख्य परसनेलिटी क्या है, स्पष्ट कीजिये?

प्रश्न 5 :- फर्स्ट में आने वालों की पहचान कौन सी एक विशेष बात से होगी?

FILL IN THE BLANKS:-

(मोह, राज्य, रेगुलर, गुण, सहज, संकल्प, सम्बन्ध, सहयोगी, स्वराज्य, पंचुअल, संस्कार, सेकंड, नम्बरवन, रॉयलकुल, वृक्ष)

- 1 भिन्न-भिन्न धर्म के पर्दे के अंदर होते हुए भी _____ में पर्दे को हटाए बाप के साथ _____ आत्माएं बन गये, लगन में आये हुए विघ्नों को भी _____ ही पार कर रहे हैं।
- 2 ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, जिन्हों का सदा _____ साकार में है कि _____ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे स्वराज्य करने वाले वहाँ भी साथ में _____ करेंगे।
- 3 यहाँ के नम्बरवन _____ और _____ गोडली स्टूडेंट वहाँ भी साथ-साथ पढ़ेंगे क्योंकि ब्रह्मा बाप _____ गोडली स्टूडेंट हैं।
- 4 जो यहाँ बाप के _____ और _____ के समीप सर्व सम्बन्धों से बाप का साथ अनुभव करते हैं वही वहाँ _____ के समीप सम्बन्ध में आवेगें।

5 सदा यह याद रखो जब सम्बन्ध नहीं तो मोह कहाँ से आया, _____ का बीज है सम्बन्ध, जब _____ को जी कट कर दिया तो बिना बीज के _____ कैसे पैदा होगा।

सही गलत वाक्यों को चिन्हित करे:- [✓] [✗]

1 :- वर्तमान संगमयुग की लिफ्ट यह दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है।

2 :- अमृतवेले अशरीरी बन स्मृति के स्वीच को सेट करो तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी।

3 :- अनुभवी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाने से कभी भी यह लिफ्ट धोखा नहीं देगी।

4 :- कोने-कोने में बाप के छिपे हुए बच्चों ने बाप को पहचान निश्चय से बहुत अच्छा जम्प लगाया है।

5 :- हिम्मत रखने वाले बच्चों के साथ बापदादा का सदा सहयोग है।

QUIZ ANSWERS

प्रश्न 1 :- बापदादा विदेशी बच्चों को किस एक बात के लिये विशेष शाबास दे रहे हैं?

उत्तर 1 :- बापदादा विदेशी बच्चों को एक बात के लिये विशेष शाबास दे रहे हैं क्योंकि :-

① कोने-कोने में बाप के छिपे हुए बच्चों ने बाप को पहचान निश्चय से बहुत ही अच्छा जम्प लगाया है।

② भिन्न-भिन्न धर्म के पर्दे के अंदर होते हुए भी सेकंड में पर्दे को हटाए बाप के साथ सहयोगी आत्माएं बन गये।

③ लगन में आये हुए विघ्नों को भी सहज पार कर रहे हैं। इसलिए बापदादा ऐसे हिम्मत रखने वाले बच्चों को विशेष शाबास देते हैं।

प्रश्न 2 :- सभी बच्चों को बापदादा द्वारा कौन सी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है और यह लिफ्ट कैसे काम करती है?

उत्तर 2 :- सभी बच्चों को बापदादा द्वारा बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है, इस लिफ्ट को कार्य में लाना हर एक का काम है. वह इसप्रकार है:-

- ① सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ पहुंच सकते हैं।
- ② यह वन्डरफुल लिफ्ट तीनों लोकों तक जाने वाली है।
- ③ यह लिफ्ट की गिफ्ट बहुत ही पावरफुल ओर सहज है।
- ④ इस लिफ्ट द्वारा जैसे ही स्मृति का स्विच ऑन किया तो एक सेकंड में वहाँ पहुँच जायेगे।
- ⑤ जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो।
- ⑥ इस लिफ्ट को विशेष यूज़ करने की विधि है:- अमृतवेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच की यर्थाथ रीति से सेट करो तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी।
- ⑦ ऑथोरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाने से कभी भी यह लिफ्ट धोखा नहीं देगी।संगमयुग की लिफ्ट यह दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है।

प्रश्न 3 :- बापदादा बच्चों का भविष्य किस आधार से. किस-किस रूप में देखते हैं?

उत्तर 3 :- बापदादा बच्चों का भविष्य डबल रूप से देखते हैं।

① एक संगमयुग का भविष्य. अर्थात बाप समान बनने का भविष्य देखते हैं।

② दूसरा. फर्स्ट जन्म का भविष्य अर्थात स्वर्ग का भविष्य.

③ यहाँ समानता में समीप होंगे और वहाँ सम्बन्ध में समीप होंगे।

④ जितना यहाँ समीपता द्वारा सदा साथ साथ हैं उतना ही मूलवतन में भी ऐसी आत्माएं साथ-साथ हैं।

⑤ स्वर्ग में भी हर दिनचर्या में सम्बन्ध का साथ है - जैसे यहाँ तुम्हीं से बोलू. तुम्हीं से खेलू. तुम्हीं से रास रचाऊं. वैसे भविष्य में भी साथ खेलेंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ-साथ राज्य करेंगे।

प्रश्न 4 :- ब्राह्मण जन्म की मुख्य परसनेलिटी क्या है, स्पष्ट कीजिये?

उत्तर 4 :- ब्राह्मण जन्म की मुख्य परसनेलिटी है :- प्यूरिटी

① प्यूरिटी की परसनेलिटी के आधार पर ही ब्रह्मा बाबा नम्बर वन की लिस्ट में आये।

② ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं, इसलिये आजकल के ब्राह्मणों द्वारा ही शुद्ध व श्रेष्ठ कार्य कराते हैं, क्योंकि उन्हीं को महान समझते हैं, श्रेष्ठता ही पवित्रता है।

③ इस पवित्रता के संस्कार के कारण ही विश्व की आत्माएं आजतक नमस्कार कर रहीं हैं।

प्रश्न 5 :- फर्स्ट में आने वालों की पहचान कौन सी एक विशेष बात से होगी?

उत्तर 5 :- फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नम्बर की प्राप्ति है, फर्स्ट जन्म में आने वालों की पहचान विशेष इस बात से होगी।

- ① आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न होंगे।
- ② विघ्न आये भी हों तो विघ्नों को जम्प दे पार किया है।
- ③ निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आये ही न हों - लेकिन विघ्न विनाशक वा विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे।
- ④ यह दोनों बातें अगर आदि से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बन सकते हैं।

FILL IN THE BLANKS:-

(मोह, राज्य, रेगुलर, गुण, सहज, संकल्प, सम्बन्ध, सहयोगी, स्वराज्य, पंचुअल, संस्कार, सेकंड, नम्बरवन, रॉयलकुल, वृक्ष)

1 भिन्न-भिन्न धर्म के पर्दे के अंदर होते हुए भी _____ में पर्दे को हटाए बाप के साथ _____ आत्माएं बन गये, लगन में आये हुए विघ्नों को भी _____ ही पार कर रहे हैं।

सेकंड / सहयोगी / सहज

2 ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, जिन्हों का सदा _____ साकार में है कि _____ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे स्वराज्य करने वाले वहाँ भी साथ में _____ करेंगे।

संकल्प / स्वराज्य / राज्य

3 यहाँ के नम्बरवन _____ और _____ गोडली स्टूडेंट वहाँ भी साथ-साथ पढ़ेंगे क्योंकि ब्रह्मा बाप _____ गोडली स्टूडेंट हैं।

रेगुलर / पंचुअल / नम्बरवन

4 जो यहाँ बाप के _____ ओर _____ के समीप सर्व सम्बन्धों से बाप का साथ अनुभव करते हैं वही वहाँ _____ के समीप सम्बन्ध में आवेंगे।

गुण / संस्कार / रॉयलकुल

5 सदा यह याद रखो जब सम्बन्ध नहीं तो मोह कहाँ से आया, _____ का बीज है सम्बन्ध, जब _____ को ही कट कर दिया तो बिना बीज के _____ कैसे पैदा होगा।

मोह / बीज / वृक्ष

सही गलत वाक्यों को चिन्हित करें:- [✓] [✗]

1 :- वर्तमान संगमयुग की लिफ्ट यह दिव्य बुद्धि की लिफ्ट है। [✓]

2 :- अमृतवेले अशरीर बन स्मृति के स्विच को सेट करो तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। [✗]

अमृतवेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी।

3 :- अनुभवी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाने से कभी भी यह लिफ्ट धोखा नहीं देगी। [✘]

अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाने से कभी भी यह लिफ्ट धोखा नहीं देगी।

4 :- कोने-कोने में बाप के छिपे हुए बच्चों ने बाप को पहचान निश्चय से बहुत अच्छा जम्प लगाया है। [✓]

5 :- हिम्मत रखने वाले बच्चों के साथ बापदादा का सदा सहयोग है। [✓]